

रहना तू युही मेरे साथ में

नैना मिले हैं तुमसे जब से
मैं तो जोगन तेरी हो गयी
कान्हा तू है मुझको भाया
दिल धड़कन में तू ही समाया
तेरी प्रीत में ऐसे खो गयी
तेरी आदा तो सबसे जुदा है

दिल पे तेरा नाम लिखा है
अब तो मेरी जिंदगी है तेरे हाथ में
ओहूह मेरे श्याम सुनले ओहूह मेरे घनश्याम
रहना तू युही मेरे साथ में
तू ही है धड़कन में आँखों में तू
बसता है तू अब तो मेरी सांस में
ओहूह मेरे श्याम

ये बहरे ये नज़ारे कुछ नहीं हैं बिन तुम्हारे
तेरे बिन ये लगते फीके तू बतादे मैं क्या करू
कोई वीरा अब नहीं है इस जहा में कुछ सहारा
मांझी तू ही श्याम मेरा
तू ही बता दे मैं क्या करू

मेरे दिल की तुझको पता है
जानती ये दुनिया क्या है

काम तू ही आया तनहा रात में
ओह्ह मेरे श्याम सुनले ओह्ह मेरे धनश्याम
रहना तू युही मेरे साथ में
तू ही हैं धड़कन में आँखों में तू
बसता हैं तू अब तो मेरी सांस में
ओह्ह मेरे श्याम

मैं दिवानी ये न जानी
मैंने लोगो कि ना मानी
ये देते मुझको ताने
मुझको परवाह ही नहीं

मैंने अपना तुमको माना
साथ तेरा ये पहचाना
नजरो को अब जचता
कोई दूसरा ही नहीं
मेरे दिल की ये सदा हैं
हो सकता तू न जुदा हैं
इतनी हैं सच्चाई मेरी बात में
ओह्ह मेरे श्याम सुनले ओह्ह मेरे धनश्याम
रहना तू युही मेरे साथ में
तू ही हैं धड़कन में आँखों में तू
बसता हैं तू अब तो मेरी सांस में
ओह्ह मेरे श्याम

तेरे दर के बनके दासी
पूजा करती हु तुम्हारी
तेरे चरणों को छोड़कर मैं जाउंगी नाही
दुनिया रूठे रिश्ते टूटे
मुझको लगते झूटे

नाम तेरा मैं कान्हा मैं बिसराऊंगी नहीं
रंग तेरा मुझपे चढ़ा है
अपनी हृद से आगे बड़ा है
कुछ नहीं है मुरली वाले मेरे हाथ में
ओहूह मेरे श्याम सुनले ओहूह मेरे धनश्याम
रहना तू युही मेरे साथ में
तू ही है धड़कन में आँखों में तू
बसता है तू अब तो मेरी सांस में
ओहूह मेरे श्याम

Source: <https://www.bharattemples.com/rehna-tu-yuhi-mere-sath-me/>



Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>